



Assurance of Support

कुछ वीजा आवेदकों को एक Assurance of Support प्राप्त करने की जरूरत होती है इससे पहले कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए उनके वीजा प्रदान किए जा सकें।

Assurance of Support क्या है

Assurance of Support (AoS) किसी ऑस्ट्रेलिया निवासी या संगठन (the assurer) और हमारे बीच एक कानूनी अनुबंध है।

AoS प्रदान करने वाला व्यक्ति या संगठन उस वीजा आवेदक (the assuree) को वित्तीय रूप से सहायता करने के लिए सहमत होता है जो AoS के अंतर्गत है। ऐसा इसलिए है ताकि वीजा आवेदक को Centrelink भुगतानों पर निर्भर न होना पड़े।

वीजा प्रकार के आधार पर, AoS 1, 2, 4 या 10 साल के लिए हो सकता है।

यदि वीजा आवेदक ऑस्ट्रेलिया में है, तो AoS नया वीजा प्रदान करने की तारीख से शुरू होगा। यदि वीजा आवेदक ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो AoS उसके ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने की तारीख से शुरू होगा।

किसे Assurance of Support की जरूरत है

जब कोई व्यक्ति वीजा के लिए आवेदन करता है, तो Department of Home Affairs उसे बताएगा कि उसे AoS की जरूरत है या नहीं।

AoS कैसे दें

ऑनलाइन आवेदन करें या हमारी वेबसाइट पर दिए फॉर्म का उपयोग करें। हम निम्नलिखित बातों के बारे में बात करने के उद्देश्य से आपको एक फोन साक्षात्कार के लिए कॉल करेंगे:

- AoS देने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है
- आपके पास सहायता प्रदान करने की वित्तीय क्षमता है या नहीं, और कानूनी और अन्य वित्तीय बाध्यताओं को पूरा कर सकते हैं या नहीं।

AoS दे देने के बाद, आप इसे रद्द नहीं कर सकते हैं।



बैंक गारंटी क्या है

कुछ AoS अनुबंधों के लिए Commonwealth Bank of Australia द्वारा जारी बैंक गारंटी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि आपको AoS की अवधि के लिए बैंक में पैसा जमा करने की जरूरत है। यदि हम वीजा आवेदक को AoS अवधि के दौरान किसी प्रकार के भुगतान करते हैं, तो बैंक गारंटी का उपयोग हमें पैसे वापस करने के लिए किया जा सकता है।

बैंक गारंटी की राशि निम्न पर निर्भर करेगी:

- आप एक व्यक्ति के रूप में आवेदन कर रहे हैं या एक संगठन के रूप में
- उन लोगों की संख्या जिन्हें आप आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और
- वीजा प्रकार जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया गया है।

हमारे द्वारा किए भुगतानों को वापस लौटाना

हम AoS की अवधि के दौरान किसी प्रवासी को वित्तीय सहायता दे सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि AoS प्रदान करने वाला व्यक्ति या संगठन सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। या क्योंकि प्रवासी के लिए सहायता स्वीकार करना अनुचित है। ऐसा करने से पहले, हम आम तौर पर आप दोनों से बात करेंगे।

हमारे द्वारा वीजा आवेदक को किए गए कुछ भुगतान AoS प्रदान करने वाले व्यक्ति या संगठन द्वारा हमें चुकाने होंगे। उन्हें हमारे द्वारा वीजा आवेदक के बच्चों को दिए जाने वाले सहायता भुगतानों को भी वापस करना पड़ सकता है।

Assuree को किए गए वसूल होने योग्य भुगतान assurer द्वारा हमें चुकाने होंगे। इनमें शामिल हैं:

- Austudy Payment
- Newstart Allowance
- Parenting Payment (Partnered)
- Parenting Payment (Single)
- Sickness Allowance
- Special Benefit
- Widow Allowance
- Youth Allowance.

Rent Assistance और Crisis Payment जैसे अतिरिक्त भुगतान भी वसूल योग्य हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए

- अंग्रेजी में अधिक जानकारी के लिए humanservices.gov.au/assurance पर जाएँ
- humanservices.gov.au/yourlanguage पर जाएँ, जहाँ आप जानकारी अपनी भाषा में पढ़, सुन या देख सकते हैं
- Centrelink भुगतानों और सेवाओं के बारे में हमसे अपनी भाषा में बात करने के लिए **131 202** पर कॉल करें
- Medicare और Child Support भुगतानों और सेवाओं के बारे में हमसे अपनी भाषा में बात करने के लिए Translating and Interpreting Service (TIS National) को **131 450** पर कॉल करें
- किसी सेवा केंद्र पर जाएँ।

नोट: ऑस्ट्रेलिया में कहीं से भी अपने घर के फोन से '13' नंबरों पर किए गए कॉल के लिए एक निश्चित दर पर शुल्क लिया जाता है। वह दर स्थानीय कॉल की कीमत से भिन्न हो सकती है और टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के बीच भी भिन्न हो सकती है। आपके घर के फोन से '1800' नंबरों पर किए जाने वाले कॉल मुफ्त होते हैं। सार्वजनिक और मोबाइल फोन से आने वाले कॉल नियतकालिक हो सकते हैं और उच्च दर पर चार्ज किए जा सकते हैं।

अस्वीकरण

इस प्रकाशन में निहित जानकारी केवल भुगतान और सेवाओं के लिए एक गाइड के रूप में अभिप्रेत है। यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप भुगतान के लिए आवेदन करना चाहते हैं या नहीं और अपनी खास परिस्थितियों के संबंध में आवेदन करना चाहते हैं या नहीं।